



# लक्षद्वीप का राजपत्र The Lakshadweep Gazette

PUBLISHED BY AUTHORITY  
EXTRAORDINARY

---

VOL. LII. No. 14, TUESDAY, 2nd AUGUST, 2016 /11th SRAVANA, 1938 (SAKA)

---

SECRETARIAT OF THE  
ELECTION COMMISSION OF INDIA

Nirvachan Sadan,  
Ashoka Road,  
New Delhi - 110001  
Dated : 15<sup>th</sup> July, 2016  
24 Ashadha, 1938 (Saka)

## NOTIFICATION

**No. 154/LKD/2016-P.Admn** : In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 13A of the Representation of the People Act, 1950 (43 of 1950), the Election Commission of India in consultation with the Administration of Lakshadweep hereby nominates Shri. Tariq Thomas, IAS (AGMU : 2011) as the Chief Electoral Officer for the Union Territory of Lakshadweep with effect from the date he takes over charge and until further orders.

By order

Sd/-  
(STANDHOPE YUHLUNG)  
Principal Secretary.

## भारत निर्वाचन आयोग

निर्वाचन सदन

अशोक रोड,

नई दिल्ली-110001


तारीख:- 15 जुलाई, 2016

24 आषाढ़, 1938 (शक)

### अधिसूचना

सं. 154/LKD/2016-P.Admn - लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 (1950 का 43) की धारा 13-क की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारत निर्वाचन आयोग लक्षद्वीप संघ राज्य क्षेत्र के प्रशासन के परामर्श से एतद्वारा, श्री तारीक धामस, आई.ए.एस. (ए.जी.एम.यू.-2011), को उनके कार्यभार ग्रहण करने की तारीख से आगामी आदेशों तक के लिए लक्षद्वीप संघ राज्य क्षेत्र के मुख्य निर्वाचन अधिकारी के रूप में नामित करता है।

आदेश से,

  
(स्टैण्डहोप युहलुंग)

प्रधान सचिव